



HAMIRPUR POLICE



:: मिशन शक्ति वृहद जागरूकता कार्यक्रम ::

मिशन शक्ति अभियान के शुभारंभ अवसर पर एक वृहद जागरूकता कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मा0 विधायक सदर श्री युवराज सिंह तथा विशिष्ट अतिथि मा अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती जयंती राजपूत रहीं।

इस मौके पर वर्ष 2020 में यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में जनपद स्तर की टॉप-10 टॉपर बालिकाओं को ₹ 05-05 हजार की चेक , प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह सदर विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत ,शासन द्वारा जनपद में मिशन शक्ति हेतु नामित नोडल अधिकारी आईएएस प्रियंका निरंजन, जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ,पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा प्रदानकर सम्मानित किया गया।

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें पुलिस की जरूरत ही ना हो। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस मिशन शक्ति के अभियान में सभी लोगों द्वारा योगदान दिया जाए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

पुलिस क्षेत्राधिकारी मौदहा ने महिलाओं को पीसीपीएनडीटी एक्ट , एंटी रोमियो स्कूयड, वुमन हेल्पलाइन 1090 ,कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से रोकथाम ,घरेलू हिंसा से रोकथाम, तीन तलाक से रोक, छेड़खानी बलात्कार के विरुद्ध बनाए गए विभिन्न एक्ट/ प्रावधानों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा महिलाओं को मोबाइल फोन का प्रयोग अपने अधिकारों को जानने / महिलाओं के सुरक्षा व स्वावलंबी बनाए जाने हेतु बनाए गए विभिन्न प्रावधानों / योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु प्रेरित किया गया





HAMIRPUR POLICE



मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हरी झंडी दिखाकर जनजागरूकता रैली को रवाना किया गया

आज दिनांक 17/10/2020 को महिलाओं / बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं स्वावलंबन संबंधी 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले "मिशन शक्ति" अभियान का शुभारंभ मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती जयंती राजपूत , मा0 सदर विधायक श्री युवराज सिंह, मिशन शक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण हेतु शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी /विशेष सचिव ,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग आईएएस श्रीमती प्रियंका निरंजन ने जन जागरूकता अभियान रैली/एलईडी वैन को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया।

इस मौके पर जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा बताया गया कि यह जन जागरूकता रैली जनपद की सभी तहसीलों ,ब्लॉको व ग्राम पंचायतों में जाकर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन से संबंधित विभिन्न योजनाओं, प्रावधानों हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार करेंगी। जिसमें 1090 वीमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन ,1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ,112 पुलिस आपातकालीन सेवा ,1098 चाइल्ड लाइन ,102 स्वास्थ्य सेवा ,108 एंबुलेंस सेवा,पुलिस सहायता संबंधी जानकारी आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार शामिल है। इसके अंतर्गत प्रत्येक माह 07 दिन तक विशेष अभियान चलेगा। अक्टूबर माह का यह विशेष अभियान 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा ।

इस मौके पर सभी विभागों में कार्यरत महिला अधिकारी /कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।

